



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938

No. 466]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

सं. 41/2016-सीमा-शुल्क

**सा.का.नि. 671(अ).—**केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2011 सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, मैं निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के क्रम संख्या 62 और इससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“63	1701	चीनी का निर्यात, क्षेत्रीय प्राधिकारी अर्थात् विदेश व्यापार महानिदेशक, जिनकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत हुई है, के द्वारा या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र देने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये वैध अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत किया गया हो, बशर्ते कि :  (क) ऐसा निर्यात उक्त अग्रिम प्राधिकार निर्यात पत्र के एवज में आयातित कच्ची चीनी के अनुपात में हो;  (ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक का उक्त प्राधिकार पत्र अवैध न घोषित किया गया हो;	शून्य”।

		(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक ने घरेलू बाजार से कच्ची चीनी न खरीदी हो; (घ) पोर्ट पर निर्यात की कंसाइनमेंट के क्लियरेंस के समय निर्यातकर्ता को सीमा-शुल्क के यथोचित क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारी के समक्ष आगम पत्र की एक प्रति इस बात के दस्तावेजी प्रमाणपत्र स्वरूप प्रस्तुत करनी होगी कि कच्ची चीनी का आयात उक्त अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत किया गया है।	
--	--	--	--

[फा. सं. 354/260/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 27/2011 सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 37/2016-सीमा-शुल्क, तारीख 16 जून, 2016 सा.का.नि. 607(अ), तारीख 16 जून, 2016 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2016

**No. 41/2016-Customs**

**G.S.R. 671(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table, after serial number 62 and the entries relating thereto the following entry shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“63	1701	Sugar exported against a valid Advance Authorization issued by the Regional Authority that is to say the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorization under the said Act subject to the conditions that: (a) Exports are effected in proportion to the import of raw sugar against the said Advance Authorization; (b) Advance Authorization holder has not got the said Authorization invalidated; (c) Advance Authorization holder has not procured raw sugar from the domestic market; (d) At the time of clearance of export consignment at port, the exporter submits a copy of the bill of entry as documentary proof of import of raw sugar under the said Advance Authorization to the jurisdictional proper officer of customs.	Nil ”.

[F. No. 354/260/2015 -TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note.-** The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended *vide* notification No. 37/2016-Customs, dated the 16th June, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 607(E), dated the 16th June, 2016.